

यात्रा भत्ता बिल के लिए प्रमाणपत्र
CERTIFICATE FOR TOUR T.A. BILLS

प्रमाणित किया जाता है कि --

Certified that --

1. मैंने वास्तव में, यात्रा बिल में निर्दिष्ट श्रेणी में मेल / एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रा की है। टिकट सं
ता. है / हैं (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की यात्राओं की स्थिति में)।
I actually travelled by Mail/Express train by the class of a accommodation as claimed in this T.A. bill. The ticket No. (s) is/are dated (in this case of I & II class travels).
2. ऐसे रविवारों तथा अवकाश के दिनों में, जिनके लिए दैनिक भत्ता मांगा गया है, मैं बस्तुतः कार्यस्थल पर मौजूद था।
I was actually and not merely constructively in camp on Sundays and other holidays during the period for which such daily allowance has been claimed.
3. उन दिनों में से मैं किसी भी दिन आकस्मिक अवकाश पर नहीं था जिन दिनों के लिए दैनिक भत्ता मांगा गया है।
I was not on casual leave on any day for which daily allowance has been charged in the bill.
4. सड़क द्वारा की दूरी की दृष्टि से, मेरी जानकारी और विश्वास के आधार पर सही है।
The distance by the road for which road mileage allowance has been charged is correct to the best of my knowledge and belief.
5. जिन विराम के दिनों के लिए, दैनिक भत्ता या आधा दैनिक भत्ता मांगा गया है, वे कार्य को निपटाने की दृष्टि से आवश्यक थे।
The halts for which Full and half daily allowance have been claimed were necessitated by the performance of duty at the places of halts.
6. यात्राएँ लोक सेवा के हित में की गई हैं तथा जिन यात्राओं के लिए भत्ता मांगा गया है, इनके लिए परिषद, केन्द्र या राज्य या किसी अन्य संस्था से निशुल्क यातायात की सुविधा प्राप्त नहीं की गई है।
The journey were performed in the interest of public service and no Council/Central/State Government or any other organisation's free transport was utilised for journeys for which road mileage has been claimed.
7. जिन स्थानों के लिए सड़क मील भत्ता मांगा गया है, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रेल से जुड़े हुए नहीं हैं।
The station between which road mileage allowance has been claimed are not connected by rail directly or indirectly.
8. रेल यात्रा यथासम्भव छोटे रास्ते से की गई तथा मांगा गया मील-भत्ता सही है।
The rail journey were performed by the shortest possible route and the rail mileage shown is correct.
9. मैंने हवाई जहाज से यात्रा की है तथा इसके लिए वास्तव में रु का किराए के रूप में भुगतान किया है।
I travelled by air and have actually paid Rs. as fare.
10. में विराम के दिनों में मुझे राज्य-आतिथ्य प्राप्त नहीं था तथा मुझे राज्य, परिषद, भारत सरकार या किसी अन्य संस्था के खर्च पर भोजन तथा आवास / आवास उपलब्ध नहीं था।
I was/was not treated as State Guest during my halt at and was/was not provided with board and lodging/lodging only at State expense at the expense of the Council, Government of India or any other organisation.
11. रेल यात्राओं के लिए वापसी टिकट उपलब्ध नहीं था।
No return ticket (rail) were available for the journey.
12. रेल यात्राओं के लिए वापसी टिकट उपलब्ध थे लेकिन वे इसलिए नहीं खरीदे गए क्योंकि नियमानुसार वापसी यात्रा निर्दिष्ट अवधि में संपन्न नहीं की जानी थी।
Return tickets (rail) were available but were not purchased because the return journey was not expected to be performed within the period for which such tickets were available.
13. मैंने निश्चित स्थानों के बीच चलने किसी सरकारी बस में निर्धारित किराया देकर (स्टीमर को छोड़कर) ऐसी सड़क-यात्राएँ नहीं की हैं जिनके लिए अनुपूरक नियमावलि 46 के अंतर्गत विहित मील भत्ते के लिए उच्च दर की मांग की गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने किसी वाहन में बिना निर्धारित किराया या वाहन का चालन खर्च दिए बिना यात्राएँ नहीं की हैं।
I did not perform road journeys for which mileage allowance has been claimed at the higher rates prescribed in Rule 46 of the Supplementary Rule by taking a single seat in any public conveyance (excluding a steamer) which plies regularly for hire between fixed point and charges fixed rates. I also certify that the journeys was not performed in any other vehicle without payment of its charges or incurring its running expenses.

